



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 137]
No. 137]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 29, 1979/चैत्र 8, 1901
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 29, 1979/CHAITRA 8, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1979

आदेश

का. आ. 166 (अ).—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 354 (असा.), तारीख 25 मई, 1978 द्वारा (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18(ख) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषित किया था कि 25 मई, 1978 के ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाएं सम्पत्ति के हस्तान्तरणपत्र, करार, समझौते, पंचाट, स्थायी आदेश या अन्य लिखित (जिनका उपक्रम एक पक्षकार है) या जो उपक्रम को लागू हो) का, जिनका गैंगाल इम्प्लूनिटी लिमिटेड, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम या ऐसे उपक्रम पर स्वामित्व रखने वाली कंपनी एक पक्षकार है या जो उक्त उपक्रम या कंपनी को लागू हों, 18 मई, 1979 तक निलम्बित रहेंगे और उक्त तारीख से पूर्व तद्धीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे,

और केन्द्रीय सरकार का संभाधार हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 17 मई, 1980 तक के लिए और बढ़ाई जानी चाहिए,

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18(ख) की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि 17 मई, 1980 तक करी, जिसके अंतर्गत यह तारीख भी है, अवधि के लिए और बढ़ाती है।

[का. सं. 4/1/77-सी.यू.सी.]

पी. सी. नायक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 29th March, 1979

ORDER

S.O. 166(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 354(E) dated the 25th May, 1978 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) declared that the operation

of all contracts, assurances of property, agreements, settlements awards, standing orders or other instruments in force (to which the undertaking is a party or which may be applicable to the undertaking) immediately before the 25th May, 1978 to which the industrial undertaking known as Bengal Immunity Company Limited, Calcutta or the company owning such undertaking is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking or company shall remain suspended upto 18th May, 1979 and that all rights privileges obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period ;

And, whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period upto 17th May, 1980 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order for a further period upto and inclusive of 17th May, 1980.

[F. No. 4/1/77-C.U.C.]

P. C. NAYAK, Joint Secy.